

# दो घंटे होगी आईटी और इलेक्ट्रीशियन की पढ़ाई

भास्कर संवाददाता | खरगोन



रोजगार की पढ़ाई-चले आईटीआई अभियान के लिए आयोजित कार्यक्रम में मौजूद छात्राएं।

उमरखली रोड स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में गुरुवार को रोजगार की पढ़ाई-चले आईटीआई अभियान की शुरुआत हुई। भोपाल से मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने सीधे प्रसारण के माध्यम से शुभारंभ किया। इसमें 500 से ज्यादा विद्यार्थी मौजूद रहे।

मुख्य अतिथि सांसद सुभाष पटेल ने कहा कि मेक इन इंडिया के लिए सबसे ज्यादा जरूरी देश के युवाओं का कौशल निखारने है, इसलिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। विधायक बालकृष्ण पाटीदार, आईएमसी अध्यक्ष परसराम चौहान, नपा उपाध्यक्ष कन्हैया कोठाने, कलेक्टर अशोक कुमार वर्मा आदि

अफसर-जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। संस्थान प्राचार्य एमएस ग्रेवाल ने बताया अभियान 30 जून तक चार चरणों में होगा। पहले चरण में ग्रीष्मकालीन शिविर लगेगा, जिसमें 26 मई तक स्कूल, ड्राप आउट व

प्रवेशित स्कूली छात्रों को चिन्हित कर आईटीआई में रोजाना 2 घंटे के मान से आईटी व घरेलू इलेक्ट्रीशियन के कोर्स सिखाए जाएंगे। दूसरे चरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का प्रदेश स्तर पर सम्मान होगा।

तीसरे चरण में 1-15 जून तक ड्राप आउट विद्यार्थियों का जिलेस्तर की आईटीआई में भ्रमण करवाया जाएगा। चौथे चरण में स्कूलों में रोजगार की पढ़ाई चले आईटीआई अभियान के प्रचार-प्रसार के लिए भ्रमण होगा।

## कक्षा 10वीं और 12वीं के समान होगी डिग्री

विधायक पाटीदार ने कहा, अभियान के तहत हर रोजगार उपलब्ध कराने की पहल प्रदेश सरकार ने की है। नौजवानों को तकनीकी शिक्षा के प्रति जोड़ने का अवसर मिलेगा। कलेक्टर ने कहा इलेक्ट्रीशियन, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व अन्य सेवा क्षेत्रों में तकनीकी दक्षता हासिल कर युवा स्वयं का रोजगार या फिर नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं। युवाओं को कौशल से जोड़ने के लिए 8वीं के बाद आईटीआई की डिग्री को 10वीं और 10वीं के बाद आईटीआई करने पर डिग्री को 12वीं के समकक्ष दर्जा दिया जाएगा। छात्र ग्रेजुएशन व आगे के पढ़ाई भी कर सकेंगे।